



Veer Madho Singh Bhandari
Uttarakhand Technical University Campus Institute
टी०एच०डी०सी० हाईड्रोपावर अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, टिहरी
THDC Institute of Hydropower Engineering & Technology, Tehri

Bhagirathipuram, Tehri Garhwal, 249124 Uttarakhand, India

<http://www.thdcihet.ac.in>, director@thdcihet.ac.in & pa2director@thdcihet.ac.in

Ph. No. 01376-236816

Date: 17/08/2024

सूचना

उद्धरण आमन्त्रण (Quotation Invitation)

संस्थान टी०एच०डी०सी०- आई०एच०ई०टी० ब्लॉक F में UTM शेड का निर्माण कार्य करवाया जाना है, जिस हेतु उद्धरण आमंत्रित की जा रही है कार्य का विवरण निम्नवत है:-

| NAME OF THE WORK- CONSTRUCTION OF UTM SHED THDC-IHET B.PURAM TEHRI GRAHWAL UTTARAKHAND Abstract Cost of UTM Shed | | | | | |
|---|--|-------|-------|------|-------|
| S.no. | Particulars | Units | Qty | Rate | Total |
| 1 | Earth work in excavation by mechanical means (Hydraulic excavator)/manual means over areas (exceeding 30 cm in depth, 1.5 m in width as well as 10 sqm on plan) including getting out and disposal of excavated earth lead upto 50 m and lift upto 1.5 m, as directed by Engineer - in-charge. All kinds of soil Column footing for shed padestal | Cum | 5.832 | | |
| 2 | Filling available excavated earth (excluding rock) in trenches, plinth, sides of foundations etc. in layers not exceeding 20cm in depth, consolidating each deposited layer by ramming and watering, lead up to 50 m and lift upto 1.5 m. | Cum | 2.922 | | |
| 3 | Providing and laying in position cement concrete of specified grade excluding the cost of centering and shuttering - All work up to plinth level :1:4:8 (1 Cement : 4 coarse sand (zone-III) : 8 graded stone aggregate 40 mm nominal size) | Cum | 4.93 | | |
| 4 | Providing and laying in position machine batched and machine mixed design mixM-25 grade cement concrete for reinforced cement concrete work, using cement content as per approved design mix, including pumping of concrete to site of laying but excluding the cost of centering, shuttering, finishing and reinforcement, including admixtures in recommended proportions as per IS: 9103 to accelerate, retard setting of concrete, improve workability without impairing strength and durability as per direction of Engineer-in-charge. | Cum | 1.58 | | |

| | | | | | |
|---|---|-----|--------|--|-----------------|
| 5 | Providing and laying in position machine batched and machine mixed design mix M-25 grade cement concrete for reinforced cement concrete work, using cement content as per approved design mix, including pumping of concrete to site of laying but excluding the cost of centering, shuttering, finishing and reinforcement, including admixtures in recommended proportions as per IS: 9103 to accelerate, retard setting of concrete, improve workability without impairing strength and durability as per direction of Engineer-in-charge. | Cum | 0.648 | | |
| 6 | Steel work in built up tubular (round, square or rectangular hollow tubes etc.) trusses etc., including cutting, hoisting, fixing in position and applying a priming coat of approved steel primer, including welding and bolted with special shaped washers etc. complete. | Kg | 599.69 | | |
| 7 | providing and fixing 15 cm wide, 45cm overall semi-circular plain G.S. sheet gutter with iron brackets 40X3 mm size, bolts, nuts and washers etc. including making necessary connections with rain water pipes complete. 080 mm thick with zinc coating not less than 275gm/m ² | m | 7.00 | | |
| 8 | Cement concrete flooring 1:2:4 (1 cement : 2 coarse sand : 4 graded stone aggregate) finished with a floating coat of neat cement, including cement slurry, but excluding the cost of nosing of steps etc. complete.40 mm thick with 20 mm nominal size stone aggregate | sqm | 33.55 | | |
| Total | | | | | |
| Deduction of the amount from the contractor for issuing the items which are available in the institute donated by the THDC India Ltd. | | | | | 18700.91 |
| Net Total | | | | | |

उक्त निर्माण कार्य हेतु दिनांक 05/09/2024 तक, स्वयं आकर/डाक के मध्यम से उद्धारण संस्थान में प्रस्तुत कर सकते हैं। उद्धारण प्रस्तुत करने से पूर्व संस्थान में भ्रमण कर कार्य का निरीक्षण कर सकते हैं किसी भी प्रश्न के मामले में श्री सोहन लाल पेटवाल एवं श्री ज्योति प्रकाश सेमवाल से संपर्क कर सकते हैं।

-Sd-

निदेशक
टी०एच०डी०सी० - आई०एच०ई०टी०